



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 जून, 2013/30 ज्येष्ठ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 51/2 ऑफ 2011

तारीख दायर : 28-6-2011

तारीख पेशी : 15-7-2013

अपील तकसीम अधीन धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम आदेश विरुद्ध सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी झण्डूता, दिनांक 7-9-2009.

शीर्षक :

श्री शमशोदीन पुत्र श्री चन्द्र, गांव तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
.. अपीलार्थी।

बनाम

सोमा राम पुत्र कृष्णू राम, गांव तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. प्रेमी देवी पुत्री श्री निक्का राम, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

2. कान्ता देवी पुत्री स्व० श्री धर्मू, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश प्रत्यार्थी।

श्री शमशोदीन पुत्र श्री चन्दू, गांव तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में धारा 14 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील तकसीम रकबा तादादी 23-10 बीघा, खसरा नं० 2, खाता खतौनी 64/74, मौजा तियूंगडी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, झण्डूता द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2009 के विरुद्ध दायर की है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थीगण को तलवी के लिए इस न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन प्रत्यार्थीगण प्रेमी देवी पुत्री श्री निक्का राम, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश व कान्ता देवी पुत्री स्व० श्री धर्मू, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के भरसक प्रयासों के बावजूद साधारण तौर पर व चस्पानगी द्वारा तलवी नहीं हो पाई।

अतः इस इशतहार के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थियों को अवगत/सूचित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15-7-2013 को अपराह्न 2.00 बजे असातन या वकालतन अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

समाहर्ता,

उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 50/2 ऑफ 2011

तारीख दायर : 28-6-2011

तारीख पेशी : 15-7-2013

अपील इन्तकाल अधीन धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम आदेश विरुद्ध सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी झण्डूता, दिनांक 28-5-2011, इन्तकाल नं० 309.

शीर्षक :

श्री शमशोदीन पुत्र श्री चन्दू, गांव तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

.. अपीलार्थी।

बनाम

सोमा राम पुत्र कृष्णू राम, गांव तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

समन बनाम :

1. प्रेमी देवी पुत्री श्री निक्का राम, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

2. कान्ता देवी पुत्री स्व० श्री धर्मू, गांव झरेड़ी तियूंगडी, परगना गेहड़वीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश प्रत्यार्थी।

श्री शमशोदीन पुत्र श्री चन्दू गांव तियूंगडी, परगना गेहडवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में धारा 14 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इन्तकाल नं0 309, तारीख फैसला 28-5-2011, मौजा तियूंगडी के सम्बन्ध में सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, झण्डूता द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-9-2009 के विरुद्ध दायर की है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थीगण को तलवी के लिए इस न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन प्रत्यार्थीगण प्रेमी देवी पुत्री श्री निक्का राम, गांव झरेडी तियूंगडी, परगना गेहडवीं, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश व कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्री धर्मू गांव झरेडी तियूंगडी, परगना गेहडवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के भरसक प्रयासों के बावजूद साधारण तौर पर व चस्पानगी द्वारा तलवी नहीं हो पाई।

अतः इस इशतहार के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थियों को अवगत/सूचित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15-7-2013 को अपराह्न 2.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

समाहर्ता,

उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0), बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

1. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव ककडियार, डा0 ककडियार, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती मनीषा कुमारी पुत्री श्री मान सिंह, साकन कोटलू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इशतहार प्रकाशित करने बाबत प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज ऐक्ट शादी दिनांक 7-11-2012 दर्ज करने हेतु।

उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस अदालत में जेर धारा 15 इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 7-11-2012 को मन्दिर में शादी कर ली है व उनकी उपरोक्त शादी रजिस्टर की जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस शादी बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 7-7-2013 से पहले न्यायालय में एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद मियाद गुजरने पर कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा तथा उपरोक्त शादी जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज ऐक्ट के तहत दर्ज कर दी जाएगी।

आज दिनांक 6-6-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

मैरिज ऑफिसर एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0),
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा : 26-4-2013

1. श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र श्री मेहर सिंह, गांव बुधार, डाकघर अलोह, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती रमा देवी सुपुत्री श्री हेम राज, गांव व डाकखाना लारजी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 26-4-2013 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 22-8-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ज्वालामुखी मन्दिर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-7-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-4-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

बलवीर ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 8-7-2013

श्री शम्भू राम पुत्र श्री वीर चन्द, निवासी टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री शम्भू राम ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल टौरखोला, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता जी का नाम भरेपतू लिखा गया है, जो गलत है। मेरे पिता जी का वास्तविक नाम वीर चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 8-7-2013

को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 8-7-2013

श्री राज कुमार पुत्र श्री दुर्गू राम, निवासी बलेहड, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री राज कुमार ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल फनैहल, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम राजमल लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम राज कुमार है। इसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 8-7-2013 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम् तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री वंसी लाल, निवासी गांव औट, डा0 व उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत्त औट में कमले राम दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत औट में उसका नाम कमलेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम कमलेश कुमार उर्फ कमले राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-7-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

रेवती उर्फ काली पुत्री श्री डाहलू, निवासी गांव टकोली, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत्त नगवाई में रेवती दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत टकोली में उसका नाम रेवती उर्फ काली दर्ज है। प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रेवती उर्फ काली दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-7-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हीरा चन्द नलवा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री वेद राम पुत्र श्री नूप राम, निवासी गांव रोपा, डा0 राहला, उप-तहसील औट, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड पटवार वृत्त रोपा में भेद राम दर्ज है जो गलत है तथा ग्राम पंचायत चौहटीगढ़ में उसका नाम वेद राम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम वेद राम उर्फ भेद राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-7-2013 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब-तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती विन्द्रा देवी पत्नी श्री ख्याल सिंह, निवासी गांव छुडगरी, डा0 वालू, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विन्द्रा देवी पत्नी श्री ख्याल सिंह, निवासी गांव छुडगरी, डा0 वालू, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पौत्री सानिया का जन्म दिनांक 26-7-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कथयारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-7-2013 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती विन्द्रा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 12-6-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा,
नायब-तहसीलदार,
औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।